

मौलिक अधिकार PDF Download

इसी प्रकार की अन्य जानकारी और PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट GkFriend.com पर जाएं।

मौलिक अधिकार के प्रकार – Maulik Adhikar ke Prakar

हमारे संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नीचे मौलिक अधिकार कितने हैं, इसको विस्तार से बताया जा रहा है।

1. समता या समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समता या समानता का अधिकार

इस अधिकार के अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को जाति, धर्म व लिंग के आधार पर किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जायेगा। समानता का अधिकार के अंतर्गत राज्य का कानून सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू होगा।

स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में रहने, शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय करने आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत देश के नागरिकों को बोलने, संघ बनाने, आवागमन आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

इस अधिकार के अंतर्गत बाल मजदूरी आती है अर्थात् बड़े-बड़े कारखानों, होटलों एवं अन्य ऐसी जगह जहां पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अधिक कार्य करवाया जाता है एवं उनके कार्य की अपेक्षा में उनको कम पैसा दिया

जाता है जिससे उनका शोषण होता है और उनका भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर हो जाता है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हमारे देश के हर एक नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है एवं उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि वह अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है तो वह अपना सकता है इसके लिए उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

इस अधिकार के अंतर्गत हमारे देश के किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा संस्था चला सकता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का 'हृदय' माना है। इस अधिकार के अंतर्गत पांच प्रकार के प्रावधान आते हैं।

- बंदी-प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध-लेख
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा-लेख

इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए [यहाँ क्लिक](#) करें।

यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें और आपको हमारे द्वारा दी गई पसंद आयी है तो आप इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए हमारे [Facebook](#) के पेज को Like और हमें [Twitter](#) पर फॉलो कर सकते हैं।